

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी कार्यशाला

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर और राज्य इकाई राजस्थान के पदाधिकारियों के लिए संयुक्त रूप दिनांक 14/08/2019 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में “हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना”, पीएफएमएस संबंधी सामान्य जानकारी और अपराहन सत्र में “कार्यालय में हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन” विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष श्री सूरज डी पाटभाजे ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि हिंदी में सरकारी कामकाज करना बहुत सरल है आज की हिंदी कार्यशाला से सभी प्रतिभागीगण कुछ नया सीखेंगे एवं हिंदी में कार्य के प्रति उनकी झिझक दूर होगी। उन्होंने कहा कि सरल शब्दों के प्रयोग के हमारा दैनिक राजकार्य सरल हो जाता है। कार्यशाला उद्घाटन सत्र में उपस्थित डॉ. संजय दास, उपमहानिदेशक, राज्य इकाई राजस्थान, श्री पी चार्ल्स डी मोनी, निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी प.क्षे. और डॉ. संजय कुमार गुप्ता, निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी राज्य इकाई, राजस्थान ने भी अपने संबोधन में दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापक श्री राजेश मीना ने आमंत्रित अतिथि वक्ता के रूप में “कार्यालय में हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन” विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

कार्यशाला के अंतिम चरण में स्वयं विभागाध्यक्ष महोदय ने सभी प्रतिभागियों से व्यवहारिक संवाद करते हुए कार्यशाला में सीखी गई जानकारीयों की प्रतिपुष्टि ली। कार्यशाला का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यशाला की प्रमुख झलकियां इस प्रकार हैं :-

	
कार्यशाला में मंचस्थ उप महानिदेशक श्री एस. डी. पाटभाजे एवं उच्चाधिकारीगण	उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यशाला में संबोधन
	
व्याख्यान देते सहायक निदेशक (रा.भा.)	कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी